

## हास्पिटल के मरीजो एव परिजनो को सड़े-गले खाद्य पदार्थ एव दूषित पानी पिलाने वालो पर बड़ी कार्यवाही

प.जवाहर लाल नेहरु चिकित्सालय एव अनुसन्धान केंद्र भिलाई के समीप स्थित हास्पिटल सेक्टर मार्केट में संचालित होटलों में साफ सफाई एव दूषित भोज्य पदार्थों के मिलने की लगातार शिकायतों पर जन स्वास्थ्य विभाग, भिलाई इस्पात संयंत्र एव नगर पालिक निगम भिलाई की संयुक्त दल ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की कार्यवाही की | जहाँ स्थिति अत्यधिक खराब एव शिकायतों से कहीं ज्यादा अव्यवस्था पाई गई | हास्पिटल सेक्टर मार्केट,दुर्ग-भिलाई के सबसे बड़े एव विश्वसनीय हास्पिटल से सबसे निकटतम है | हास्पिटल में भर्ती मरीज सहित परिजन जूस,चाय,नाश्ते एव खाने के लिए इसी मार्केट के होटलों पर निर्भर रहते हैं | इसके महत्व को देखते हुए मार्केट के होटलों की जाँच की गई | जहाँ होटल मुरुगन एव लक्ष्मी विलास होटल दोनों के पीने के पानी का स्रोत छिछला कुंआ नुमा गड्डा है जिसके पानी से लोग शायद नहाना भी ना चाहे उस पानी का उपयोग पीने एव खाना बनाने में हो रहा है, दिखावे के लिए बी.एस.पी.का कनेक्शन लिया गया है |उपलब्ध खाद्य पदार्थ कई दिन पुराना,इडली सांभर,डोसा,बड़ा का पेस्ट कई दिन पुराना जो खाने योग्य नहीं था | किचन में इतनी गंदगी एव बदबू थी की खड़ा होना मुशिकल था | कोल्ड ड्रिंक के बोतल एकसपाईरी डेट के मिले | दिखावे के लिए कमर्शियल गैस सिलेंडर रखकर घरेलु गैस सिलेंडर का धडल्ले से इस्तेमाल हो रहा था,जिसे फूड इंस्पेक्टर विनीता दास द्वारा चूल्हा सहित जब्त कर सक्षम न्यायालय में परिवाद पेश करने कार्यवाही की गई |बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाए जाने पर नगर निगम आयुक्त श्री के.एल.चौहान के निर्देश पर फूड एव ड्रग विभाग एव खाद्य विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंच कर अपनी कार्यवाही की अंजाम दिया |

तथा नियमानुसार सेम्पल लेकर परिक्षण हेतु संरक्षित किया सिल एव पैकेजिंग की कार्यवाही जारी है | दल को सबसे आश्चर्य पीने के पानी को देखकर हुआ |वही जूस शॉप संचालक जिसके पास व्यवसाय हेतु किसी भी प्रकार की अनुज्ञा नहीं थी के द्वारा जूस निकालने सड़े-गले फलो का उपयोग किया जा रहा था |जिसके सेवन से रोगी पर पड़ने वाले प्रभाव की कल्पना से ही रूह कांप जाती है | इस संयुक्त कार्यवाही के दौरान जन स्वास्थ्य विभाग,भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रभारी के.के.यादव सहा.प्रबंधक ए.के.बंजारा,रमेश के.गुप्ता,व्ही.के.भोंडेकर,पर्वक्षक डी.के.मिश्रा,सरत,रत्नाकर,एव नगर पालिक निगम से अजय शुक्ला,रामायण सिंह,श्यामलाल,मांझी,शरद दुबे,यशवंत चतुर्वेदी खाद्य विभाग से सुश्री विनीता दास,फूड एव ड्रग विभाग से अजय सिंह,नारद कोमेर,क्षीरसागर पटेल आदि उपस्थित रहे |

